

DAV PUBLIC SCHOOL

SRESHTHA VIHAR, DELHI-110092

HOLIDAYS HOMEWORK

CLASS: PRE-PRIMARY

(2019-20)

Name _____



**Summer Time is here!
Let's all give a great cheer!!!**

Dear Parents



Summer Vacation is a time for relaxation and enjoyment. As important as it is to rest & enjoy, it is also important to continue to learn and to reinforce the skills developed till date. Let vacation time be a doorway to creativity, learning, growth and joy for your ward.

We are sure that you will utilise this opportunity and spend maximum time with your child while keeping them physically busy and mentally active. Simple, imaginative activities that teach and entertain the kids are much more fun and beneficial than sitting in front of a TV or mobile screen. Plan plenty of visits, excursions, nature walk and spend time outdoors with them.




**Keeping the kids entertained during Summer
is easier than you think.**

Here we bring meaningful and creative activities to occupy the little ones in their free time.

START




There is a rhyming picture pair on each space.
Colour each space and pictures. Take turns
moving around the board and name the
rhyming pictures when landed on a space.



**RHYMING
GAME**



FINISH



a b c d e f g


'Word Family' Words

Look at the picture below. Find, colour and write the 'Word Family' words in the correct column.

-at family	-an family	-ap family	-ag family
1. _____	1. _____	1. _____	1. _____
2. _____	2. _____	2. _____	2. _____
3. _____	3. _____	3. _____	3. _____
4. _____	4. _____	4. _____	4. _____

z
y
x
w
v
u
t
s

h
i
j
k
l
m
n



hat

can

fan

cat

mat

rag

map

pan

ran

tap

wag

bag

cap

nap

bat

tag

r

q

p

o

n

a b c d e f g

z

y

x

w

v

u

t

s

r

q

p

o

n

h

i

j

k

l

m

Get Crafty with 'Word Family' Words

Let the creative juices flow, help your ward to present any 1 'a' family of words (ag, ax, at, am, an, ap, ad, ab) in the most innovative manner in the space provided. An example is shown for the clarity.



A large, empty rounded rectangular box for creating a craft project.

a b c d e f g


Lucky Word Families

Colour the words that belong to the same family

z

h


y



am jam ram dam lap

x

i




ax wax can fax tax

w

j

v




ad rag lad mad bad

k

u

l



ab cab mat tab nab

n

s


r

q

p


o

n



Join the dots


Join the dots from 1-10 to complete and colour the picture.




7 6 9 8 4 5 3 1

Count & Colour

Count & colour the pictures and encircle the correct number box.



2 8 4



3 6 5



6 5 3



6 10 7



5 3 4



2 4 5



7 8 9



2 1 3

0

4

1

5

2

7

0

2

3

8

9

1

6

7

9

8

3

0

5

6

4


0

7 6 9 8 4 5 3 1


Count & Colour

Read aloud each number and colour the pictures accordingly.


4




1




3



5



2



0 4 1 5 2 7 0

2 3 8 9 1 6 7


9 8 3 0 5 6 4 0



Fun with Shapes

Create a design using different shapes in the space provided.

Draw different colourful patterns (sleeping, slanting, standing etc) to complete the picture.



अभ्यास पुस्तिका - व्यंजन 'क - ध' तक के पृष्ठ पूर्ण कीजिए ।

कविता - सुबह , गर्मी आती है कविताओं का अभ्यास कीजिए ।

शब्द ज्ञान - दो व्यंजनों को जोड़कर नए शब्द बनाने का मौखिक अभ्यास कीजिए ।

जैसे: ख + त = खत

ज + ग = जग

अभिभावकों के लिए -

- व्यंजन 'क - ध' में से एक व्यंजन चुनकर बच्चों के साथ मिलकर एक कहानी बुनिए तथा कहानी से सम्बंधित पांच फ़्लैश कार्ड (A4 sized) बनाइये ।
- विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियों द्वारा सामान्य बोल चाल से बच्चों के शब्द भण्डार में वृद्धि करवाइए ।



